



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी
प्रेस नोट

दिनांक-03.07.2022

थाना सारनाथ पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण, 03 नफ़र
अंतर्राज्यीय शातिर चोर कमलेश राजभर, सूरज राजभर व राकेश राजभर गिरफ्तार
कब्जे से चोरी के 08 लाख 70 हजार रुपये नगद, 24 अदद चांदी के सिक्के व गिन्नी तथा
घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटरसाईकिल बरामद

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी के वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी व चोरी/लूट की घटनाओं के सफल अनावरण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन में एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के पर्यवेक्षण में थाना सारनाथ पुलिस व क्राइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज व मुखबीर की सहायता से मु237 0सं0अ0/अन् 2022तर्गत धारा 457/380/411/भादवि 34 से संबंधित वांछित अभियुक्तगण (1) कमलेश राजभर पुत्र कैलाश राजभर नि0 सरवरपुर पोस्ट बहेरी थाना खानपुर जनपद गाजीपुर (2) सूरज राजभर पुत्र बहादुर राजभर नि0 सरवरपुर पो0 बहेरी थाना खानपुर जनपद गाजीपुर (3) राकेश राजभर उर्फ डम्मू पुत्र स्व0 अशोक राजभर नि0 सरवरपुर पो0 बहेरी थाना खानपुर जनपद गाजीपुर को आज दिनांक-03.07.2022 को समय 10.55 बजे सिंहपुर पुलिया से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त में चोरी गए 08 लाख 70 हजार रुपये नगद, 24 अदद चांदी के सिक्के व गिन्नी तथा घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाईकिल, दो अदद पेंचकस व एक अदद लोहे की छेनी बरामद किया गया। उक्त के सम्बन्ध में थाना सारनाथ पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

- (1) कमलेश राजभर पुत्र कैलाश राजभर नि० सरवरपुर पोस्ट बहेरी थाना खानपुर जनपद गाजीपुर, उम्र 24 वर्ष ।
- (2) सूरज राजभर पुत्र बहादुर राजभर नि० सरवरपुर पो० बहेरी थाना खानपुर जनपद गाजीपुर, उम्र 25 वर्ष ।
- (3) राकेश राजभर उर्फ डम्मू पुत्र स्व० अशोक राजभर नि० सरवरपुर पो० बहेरी थाना खानपुर जनपद गाजीपुर, उम्र 22 वर्ष ।

विवरण पूछताछ- अभियुक्त सूरज राजभर ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं पहले मुम्बई में रहकर अपने साथियों के साथ फ्लैटों में चोरी करता था, मेरे ऊपर मुम्बई में एक दर्जन के करीब चोरी के मुकदमें पंजीकृत है। मैं जनवरी माह वर्ष 2022 में अपने घर सरवरपुर पो० बहेरी थाना खानपुर जनपद गाजीपुर अपने साथियों राकेश राजभर व कमलेश राजभर के साथ आया था। हम लोग अगल-बगल के ही रहने वाले हैं और गाँजा-शराब के सेवन करते हैं तथा हमलोगो की कई गर्लफ्रेंड्स हैं, जिसमें काफी पैसै खर्च हो जाते हैं। इसलिये हमलोग एक प्लानिंग के तहत बनारस में फ्लैटों में चोरी करने के लिये आये थे। हम लोग दिनांक-21.06.2022 को अटलांटिका अपार्टमेंट सारनाथ के फ्लैट नं० 305 में चोरी करने के लिये आये थे लेकिन अपार्टमेंट के फ्लैट नं० 305 में लोग मौजूद थे, इसलिये घटना कारित नहीं कर सके। फिर दिनांक-24.06.2022 को मैं, कमलेश राजभर तथा राकेश राजभर प्लानिंग के तहत हीरो होण्डा स्पेलेण्डर प्लस से अटलांटिका अपार्टमेंट के पास दोपहर के करीब दो बजे आकर रैकी करते हुये प्रवेश किये और फ्लैट नं०-305 को टारगेट करते हुये दो अदद पेचकश तथा लोहे की छेनी का प्रयोग करते हुये दरवाजा को तोड़कर अन्दर प्रवेश कर आलमारी को तोड़कर 10 लाख रुपये नगद तथा 24 अदद चाँदी के सिक्के एवं गिन्नी बैग में भरकर फरार हो गये थे। आज हम लोग फिर पहड़िया पर किसी अन्य अपार्टमेंट को निशाना बनाने वाले थे कि आपलोगो द्वारा पकड़ लिये गए। हम लोगों ने अटलांटिका अपार्टमेंट से जो पैसे चोरी किये थे उसमे से कुछ पैसे हमने इधर-उधर समान व मोबाईल खरीदने में खर्च कर दिये।

बरामदगी का विवरण-

1. चोरी के 08 लाख 70 हजार रुपये नगद बरामद उपरोक्त मुकदमें से सम्बन्धित।
2. 24 अदद चाँदी के सिक्के व गिन्नी बरामद उपरोक्त मुकदमें से सम्बन्धित।
3. घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटर साईकिल हीरो होण्डा स्पेलेण्डर UP61AK4557 बरामद।
4. घटना में प्रयुक्त आला नकब दो अदद पेंचकस और एक अदद लोहे की छेनी बरामद।
5. विभिन्न कम्पनियो के 03 अदद मल्टीमिडिया मोबाईल फोन बरामद।
6. जामा तलाशी से 440 रुपये नगद बरामद।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 1-थानाध्यक्ष सारनाथ अर्जुन सिंह, उ०नि० अखिलेश वर्मा, उ०नि० प्रशि० शैलेन्द्र क्राईम टीम, हे०का० देवाशीष सिंह क्राईम टीम, हे०का० रामबाबू क्राईम टीम, का० रामानन्द यादव क्राईम टीम, हे०का० केशव प्रसाद, हे०का० अरसद खान, का० अनिल पाल थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।
- 2-उ०नि० बृजेश मिश्रा, हे०का० संतोष साह, का० अमित कुमार शुक्ल, का० आलोक मौर्या, का० वीरेन्द्र यादव, का० शिव बाबू, का० नीरज मौर्या, का० सूरज सिंह जनपदीय क्राइम ब्रांच कमिश्नरेट वाराणसी टीम।
- 3-का० दीवाकर वत्स व का० अनुग्रह वर्मा सर्विलांस टीम कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल

पुलिस उपायुक्त

वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी